

भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 106

सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा**

106. श्री बालक नाथ:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

कुमारी राम्या हरिदास:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु पर्यटन आवश्यक है जबकि वर्तमान में इसका योगदान केवल 0.38 प्रतिशत है;
- (ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सहित देश में ग्रामीण पर्यटन बाजार की भारी संभावनाएं हैं;
- (ग) क्या देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान सहित देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए थीम आधारित पर्यटन परिपथों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना आरंभ की है। देश में ग्रामीण पर्यटन की क्षमता को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने इस योजना के तहत विकास हेतु थीमेटिक परिपथों में से एक के रूप में ग्रामीण परिपथ को अभिज्ञात किया है और इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को देश के ग्रामीण पहलुओं की एक झलक दिखलाने के लिए पर्यटन को एक बल गुणक के रूप में उपयोग करना है।

ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं/प्रस्तावों सहित पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से परिपथ के तहत विकास हेतु की जाती है और उन्हें निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है

|

उपरोक्त मानदंड के आधार पर, मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश में ग्रामीण परिपथ के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति दी है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/स्वीकृति का वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	बिहार 2017-18	गांधी परिपथ का विकास: भित्तहारवा-चंद्रहिया-तुरकौलिया	44.65
2.	केरल 2018-19	मालानाड मालाबार कूज का विकास पर्यटन परियोजना	80.37

पर्यटन मंत्रालय को राजस्थान राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण परिपथ के तहत विकास के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, प्राचीन विरासत, संस्कृति सहित भारत का एक समग्र पर्यटन स्थल के रूप में संवर्धन करता है और अपनी चल रही गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में, अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया अभियान जारी करता है, ताकि ग्रामीण पर्यटन सहित देश में पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों को संवर्धन किया जा सके । मंत्रालय अपनी वेबसाइट और समय-समय पर इसके द्वारा तैयार प्रचार और संवर्धन सामग्री के माध्यम से भी पर्यटन स्थलों और उत्पादों को संवर्धन करता है ।

\*\*\*\*\*